



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

21 श्रावण 1935 (श०)  
(सं० पटना 639) पटना, सोमवार, 12 अगस्त 2013

---

बिहार विधान-सभा सचिवालय

-----  
अधिसूचना

1 अगस्त 2013

सं० वि०स०वि०-20/2013-5017/वि०स०।—“बिहार विनियोग (अधिकाई व्यय 1987-1988, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 एवं 2010-2011) विधेयक, 2013”, जो बिहार विधान-सभा में दिनांक 01 अगस्त, 2013 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है।

फूल झा,  
प्रभारी सचिव,  
बिहार विधान-सभा।

**बिहार विनियोग (अधिकाई व्यय 1987-1988, 2004-2005, 2005-2006,  
2007-2008 एवं 2010-2011) विधेयक, 2013**

[वि०स०वि०-21/2013]

बिहार राज्य की संचित निधि में से कुछ और राशियों का वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 1988, 2005, 2006, 2008 एवं 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष की सेवा के लिए शोधन और विनियोग नियमित करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य में चौसठवें वर्ष में बिहार राज्य के विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम । — यह अधिनियम बिहार विनियोग (अधिकाई व्यय, 1987-1988, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 एवं 2010-2011) अधिनियम, 2013 कहा जा सकेगा ।

2. वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 1988, 2005, 2006, 2008 एवं 2011 को समाप्त होने वाले वर्षों के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से क्रमशः 3949265, 551741, 23629215, 526930308, 8875813 एवं 2733546070 रुपये की निकासी । बिहार राज्य की संचित निधि से अनुसूची के स्तम्भ-7 में उल्लिखित राशि से अनधिक राशि जो कुल मिलाकर 3297482412 (तीन अरब उनतीस करोड़ चौहत्तर लाख बयासी हजार चार सौ बारह) रुपये हैं, उक्त अनुसूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित सेवाओं के संबंध में 31 मार्च 1988, 2005, 2006, 2008 एवं 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान आने वाले अनेक भारों, जो उस वर्ष की सेवाओं के लिए अनुदत्त राशियों में अधिक थे, की पूर्ति के लिए शोधित की जा सकेगी और प्रयोग में लायी जा सकेगी ।

3. विनियोग — इस अधिनियम के द्वारा जिन राशियों को बिहार राज्य की संचित निधि से शोधित और प्रयुक्त करने का प्राधिकार दिया गया है उन्हें वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 1988, 2005, 2006, 2008 एवं 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में उक्त अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजन के निमित्त विनियुक्त किया गया समझा जायेगा ।

अनुसूची  
(देखें धाराएं 2 एवं 3)

वित्तीय वर्ष 1987-1988				अधिकाई व्यय की रकम		
क्रम संख्या	अनुदान/ विनियोजन संख्या	सेवायें और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है।	राजस्व/ पूँजी	बिहार विधान सभा द्वारा दिये गये अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1	48	खानें एवं खनिजें	राजस्व	<b>3949265</b>	—	<b>3949265</b>
			कुल	<b>3949265</b>		<b>3949265</b>

अनुसूची  
(देखें धाराएं 2 एवं 3)

वित्तीय वर्ष 2004-2005				अधिकाई व्यय की रकम		
क्रम संख्या	अनुदान/ विनियोजन संख्या	सेवायें और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है।	राजस्व/ पूँजी	बिहार विधान सभा द्वारा दिये गये अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1	46	पर्यटन विभाग	पूँजी	<b>551741</b>	—	<b>551741</b>
			कुल	<b>551741</b>		<b>551741</b>

**अनुसूची**  
(देखें धाराएं 2 एवं 3)

वित्तीय वर्ष 2005-2006				अधिकाई व्यय की रकम		
क्रम संख्या	अनुदान/ विनियोजन संख्या	सेवायें और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है।	राजस्व/ पूँजी	बिहार विधान सभा द्वारा दिये गये अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1	46	पर्यटन विभाग	राजस्व	<b>4251477</b>	—	<b>4251477</b>
			पूँजी	<b>19377738</b>	—	<b>19377738</b>
			कुल	<b>23629215</b>		<b>23629215</b>

**अनुसूची**  
(देखें धाराएं 2 एवं 3)

वित्तीय वर्ष 2005-2006				अधिकाई व्यय की रकम		
क्रम संख्या	अनुदान/ विनियोजन संख्या	सेवायें और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है।	राजस्व/ पूँजी	बिहार विधान सभा द्वारा दिये गये अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1	10	ऊर्जा विभाग	पूँजी	<b>526930308</b>	—	<b>526930308</b>
			कुल	<b>526930308</b>		<b>526930308</b>

**अनुसूची**  
(देखें धाराएं 2 एवं 3)

वित्तीय वर्ष 2007-2008				अधिकाई व्यय की रकम		
क्रम संख्या	अनुदान/ विनियोजन संख्या	सेवायें और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है।	राजस्व/ पूँजी	बिहार विधान सभा द्वारा दिये गये अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1	42	ग्रामीण विकास विभाग	पूँजी	<b>8875813</b>	—	<b>8875813</b>
			कुल	<b>8875813</b>		<b>8875813</b>

**अनुसूची**  
(देखें धाराएं 2 एवं 3)

वित्तीय वर्ष 2010-2011				अधिकाई व्यय की रकम		
क्रम संख्या	अनुदान/ विनियोजन संख्या	सेवायें और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है।	राजस्व/ पूँजी	बिहार विधान सभा द्वारा दिये गये अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1	15	पेंशन	राजस्व	<b>2733546070</b>	—	<b>2733546070</b>
			कुल	<b>2733546070</b>		<b>2733546070</b>

## उद्देश्य एवं हेतु

राज्य की संचित निधि से कोई राशि 'भारतीय संविधान' के अनुच्छेद 204 के अधीन बनी विधि के अनुसार ही विनियोजित की जायेगी, अन्यथा नहीं। वित्तीय वर्ष 1987-1988, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 एवं 2010-2011 में विधान मंडल से स्वीकृत राशि से अपरिहार्य कारणों से किए गए अधिकाई व्यय को लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन संख्या 495, 493, 494, 496, 497 एवं 489 के आलोक में विनियमित करने की आवश्यकता है।

इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 1988, 2005, 2006, 2008 एवं 2011 को समाप्त होने वाले वर्षों के दौरान लोक लेखा समिति द्वारा विनियमन हेतु अनुशंसित अधिकाई व्यय के लिए क्रमशः 3949265, 551741, 23629215, 526930308, 8875813 एवं 2733546070 रुपये अर्थात् कुल 3297482412 (तीन अरब उनतीस करोड़ चौहत्तर लाख बयासी हजार चार सौ बारह) रुपये की राशि का शोधन और विनियोग इस विधेयक द्वारा प्राधिकृत कराया जाना ही इस विधेयक का मुख्य अभीष्ट है।

( नीतीश कुमार )

भार-साधक सदस्य

पटना :  
दिनांक 1 अगस्त, 2013

फूल झा,  
प्रभारी सचिव,  
बिहार विधान-सभा ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 639-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>